

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

विशाखपट्टनम

आंध्र प्रदेश के विशाखपट्टनम में माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत-परिवहन और रासायनिक एवं खाद राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) के संदर्शन पर संक्षेप में प्रेस नोट

भारत सरकार के माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत-परिवहन और रासायनिक एवं खाद राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड के प्रधान कार्यालय और समुद्र-तटीय सड़क सहित उसके निकर्षण क्षेत्र का संदर्शन किया। कुरसुरा पनडुब्बी अजायबघर के पास डीसीआई ड्रेज-17 द्वारा संभाले जा रहे तट-पोषण कार्यकलापों का दर्शन करते हुए उन्होंने डीसीआई और वि.प.न्या. के उच्च अधिकारियों से संभाले जा रहे निकर्षण के प्रचालनिक विवरणों पर चर्चा की। श्री राजेश त्रिपाठी, अ.प्र.नि., ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड, ने विशाखपट्टनम पत्तन न्यास के लिए डीसीआई द्वारा संभाले जा रहे तट पोषण कार्य की प्रगति के विवरण दिए। इस अवसर पर, माननीय मंत्री ने देश भर में मनाए जा रहे “स्वच्छता पखवाड़ा” पहल के अंतर्गत, समुद्र-तटीय क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। माननीय मंत्री महोदय ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आर.के.बीच के पास डीसीआई द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालय का भी निरीक्षण भी किया। इसके बाद, उसी दिन माननीय मंत्री महोदय ने श्री के.हरिबाबू, सांसद, विशाखपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र, के साथ मिलकर डीसीआई के कार्यालय में डीसीआई, आंध्रप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य और पेट्रोलियम, केमिकल्स एण्ड पेट्रो केमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजियन (पीसीपीआईआर) के साथ समीक्षा बैठकें की।

2. समीक्षा के दौरान, अ.प्र.नि., डीसीआई लिमिटेड, ने निकर्षण, भूमि उद्धार, तट-पोषण, के क्षेत्रों में डीसीआई द्वारा संभाले जा रहे विविध कार्यकलापों, हाल ही में डीसीआईएल द्वारा हासिल किए गए अंतर्राष्ट्रीय निकर्षण संविदाओं और निगमित सामाजिक दायित्वगत कार्यकलापों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिए। अ.प्र.नि. ने बताया कि यह कम्पनी सभी प्रधान पत्तनों की निर्वाहगत निकर्षण अपेक्षाएँ पूरा कर रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह कम्पनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूप से बंगला देश के मॉग्ला पत्तन जैसे कार्य निविदा पद्धति पर प्राप्त कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश के प्रधान पत्तनों की सभी निर्वाहगत निकर्षण अपेक्षाएँ पूरा करने के लिए इस कम्पनी के कर्मचारियों और इस कम्पनी की परिसंपत्तियों का पर्याप्त अनुभव और सामर्थ्य है। माननीय मंत्री महोदय का कथन है कि चूँकि डीसीआई ही एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम निकर्षण कम्पनी है, व्यूहनीतिक तौर पर महत्व रखनेवाली संस्था है। और उन्होंने इस कम्पनी के निष्पादन और विकास में वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और इस कम्पनी द्वारा पत्तनों, जो देश के लिए जीवन-रेखाएँ हैं, के लिए दी जानेवाली सेवाओं को सराहा तथा इस संबंध में सरकार की तरफ से सभी प्रकार की सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया।

(जारी ...2.)

